

eClerx/SECD/SE/2025/155

December 20, 2025

BSE Limited

Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Corporate Listing Department Exchange Plaza, Plot No. C/1, Block G, Bandra - Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of Letter of Offer of the Buy

Back of fully paid up equity shares of eClerx Services Limited (the "Company") through

tender offer

Scrip Code: <u>BSE - 532927</u>

NSE – ECLERX

This is in furtherance to our letter number eClerx/SECD/SE/2025/153 dated December 18, 2025 in relation to the letter of offer for buyback of upto 625,000 (Six Hundred Twenty Five Thousand) fully paid equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each of the Company ("Equity Shares" or "Shares") at a buy back price of ₹ 4,800/- (Rupees Four Thousand Eight Hundred only) per Equity Share ("Buy Back Price") payable in cash, for an amount not exceeding ₹ 3,000 million (Rupees Three Thousand Million Only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the buy back ("Buy Back Size").

Pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement with respect to completion of dispatch of Letter of Offer along with Tender Forms and Form SH-4 to the eligible equity shareholders published today i.e. December 20, 2025 in the following newspapers:

1. Business Standard (English and Hindi)- All India edition

Mumbai

2. Navshakti – Mumbai edition

The newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.eclerx.com.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours truly,

For eClerx Services Limited

Pratik Bhanushali VP-Legal & Company Secretary F8538

Encl: As above

Fog chaos at airports spreads

Winter made its presence felt across North India as dense smog continued to trigger widespread disruption in flight operations out of Delhi, with IndiGo and Air India cancelling sev real services that rippled across their network, affecting airports including Mumbai and Hyderabad. IndiGo, according to its website, has can-celled around 149 flights scheduled for Friday and Saturday.

Tor Friday and Saturday.

Delhi woke up under a thick blanket of fog and haze that sharply reduced early-morning visibility. Relative humidity touched 100 per cent, while the minimum tempera ture dipped to 9°C, according to the India Meteorological Department. Air quality remained firmly in the "very poor" category, with the city's 24-hour average Air Quality Indexa at 382, edging closer to "severe" levels. Forecasters warned the situation

382, edging closer to "severe" levels.

indigo said operations were processers warmed the situation was unlikely to ease, with the Air Quality Early Warming System continued the continued of the continued and the continued under low-visibility CAT III conditions through Friday morning, and clayed more than 230 others. Data including international services, and delayed more than 230 others. Data from light racking website Flighttandar24, showed average departured warming son low visibility cards from the continued under low-visibility CAT III conditions through Friday morning, and the continued was a continued under low-visibility cards and the continued under low-visibility and for a continued under low-visibility and



An airplane lands amid fog and low visibility at Jay Prakash Narayan International Airport in Patna. Visibility dropped to zero metres at several locations across Uttar Pradesh, Punjab, Delhi, Madhya Pradesh, Bihar, and Jharkhand

cautioned passengers to expect possible delays or disruptions, adding that ground staff were assisting travellers across terminals. face delays or revised schedules.
Air India, in a separate advisory, flagged forecasts of dense fog in Delhi and parts of northern and eastern India on Saturday, warning that the conditions could affect flight schedules and trigger-cascading dissuppose. The air schedules and trigger-cascading dissuppose to the condition of the

schedules and trigger cascading dis-ruptions across its network. The air-line pointed passengers to its FogCare initiative, which allows those booked on certain flights during the fog window to receive advance alerts, reschedule without additional charges, or opt for a full refund without penalty. Weather forecast showed little sign of improvement. The MD issu-tion of improvement. The MD issu-

Weather forecast showed little sign of improvement. The IMD issu-ed a red alert on Friday, warning of major disruptions toroad, rail and air traffic. Visibility dropped to zero metres at several locations across Uttar Pradesh, Punjab, Delhi, Mad-hya Pradesh, Bihar, and Jharkhand. Dense to very dense fog

No conclusive data to link higher AQI to lung diseases: Govt

There is no conclusive data establishing a direct correla-tion between higher air quality index (AQI) levels and lung dis-eases, the government has told Parliament.

In a written reply in the Rajya Sabha, Union Minister of State for Environment Kirti Vardhan Singh, however, vardnan Singn, nowever, acknowledged that air pollu-tion is one of the triggering fac-tors for respiratory ailments and associated diseases. Singh was responding to a question by BJP MP Laxmi-kant Bajpayee, who asked

question by BJP MP Laxmi-kant Bajpayee, who asked whether the government was whether the government was aware that studies and medical tests have confirmed that prolonged exposure to hazardous AQI levels in Delhi-NCR is leading to lung fibrosis, an irreversible reduction in lung capacity.

conditions were also witnessed in

conditions were also witnessed in Odisha, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarak-hand, Haryana, and Chandigarh. Despite the widespread disru-ption, online travel operator Clear-trip said it had not seen a sharp rise in cancellations.

Rebirth, regeneration and cycles of life

If you loved reading *The Shadow Lines* (1988) and *The Hungry Tide* (2004), written by Amitav 11ae (2004), written by Amtrav Ghosh, chances are that his latest novel, Ghost-Eye, will blow your mind. He writes, yet again, with deep affection for Calcutta (now Kolkata) and the Sundar-bans, and from a moral responsi-bility to make amends for the ecological harm that human beings have caused

beings have caused.
It opens with a deceptively simple premise: What happens when a three-year-old girl, raised in a strictly vegetarian Marwari household in Calcutta of the 1960s, suddenly demands a meal of fish and rice one day, and refuses to eat anything at all until she has her way? This, however is noordinary craying. until she has her way? This, however, is no ordinary craving. This child, named Varsha, who now lives in a sprawling mansion, remembers a past life where she grew up in a mud house by a river, where catching and cooking fish was part of everyday life. She remembers the exact location of that house and the that house, and the

that house, and the names of her parents. Her father, Abhay, a photographer by train-ing, and an anomaly in a business family, seeks the help of a psy-chologist called Shoma to help his daughter. The author's gentle treatment of the relatreatment of the rela-tionship between Abhay and Varsha is one of the most beauti-ful aspects of this novel because it shows that there are mature alternatives to tough love, which prioritise respect over fear. This is best captured in the words of Dinu, the narrator, whose life is intertwined with

whose life is intertwined with Shoma's and Varsha's. Dinu Shoma's and Varsha's. Dinu notes, "Shoma marvelled inwardly at how Abhay had unquestioningly and unflinchingly accepted the possibility that his beloved Varsha, now cocooned by his family's vast wealth, had in her past life been a poor fisherwoman with a troubled family history." troubled family history."



His acceptance is juxtaposed against the denial and rejection with which her mother Dipika responds. She cannot bear the fact that

bear the fact that Varsha used to eat fish in her previous life. What makes things worse is that Varsha remembers her mother from that life-time, and displays a greater fondness for the woman who not only allowed her to eat

fish but also taught her how to

hish but also taught her how to cook it.

Fortunately, the author does not go down the simplistic route of pitting vegetarians and non-vegetarians, or Bengalis and non-Bengalis, or Hindus and Muslims, against each other. He points out, through Varsha's caretaker Block on the twen caretaker Bhola'r-ma, that even Bengali Hindu families that Bengali Hindu families that usually consume fish have cus-toms forbidding widows from partaking of non-vegetarian food. She wants Varsha's parents and grandparents to know that she has not been feeding Varsha any fish on the sky any fish on the sly.

Ghosh also deserves appreci-

ASPIRE

ation for his skillful portrait of the psychologist as a profes-sional who builds trust, offers non-judgemental listening, and finds creative ways to support the well-being of her clients. the weil-being of her clients. Shoma comes across as a woman whose scientific background gives her the tools to help Varsha and her family but she never loses her sense of wonder or the intellectual humility to admit that there are ways of knowing in which she is not fluent.

which she is not fluent.

It is hard to say more about the novel without giving away spoilers but it is worth noting that the narrative flits between Calcutta in the 1960s and present-day Brooklyn, and includes the Covid-19 pandemic as well as Cyclone Amphan in its broad sweep of historical events that intersect with the tragedjes and intersect with the tragedies and epiphanies that Ghosh's char-

epipnanies that driftes acters face.
Dinu's son Tipu, who appears later in the novel, is an environmental activist trying to stop a power plant from destroying the Sundarbans. His approach is unconventional but refreshing. because it draws on indigenous knowledge and lore alongside

knowledge and lore alongside environmental impact studies. Ghosh has this incredible knack for approaching the whole process of world-build-ing in such an empathetic way that you feel like his characters live down the road and have a veletiseship with turk. live down the road and have a relationship with you. He makes you feel so invested in their lives that you root for them and weep with them. You want to know about what happens to them much after you have finished reading the book.

We are lucky that Chosh continues to tell stories that are profound, layered and meaningful. He is able to write confidently about history, seience, mythol-

about history, science, mythol-ogy, and faith without sounding contrived. This is a gift in a world where cleverness and packaging determine what sells.

The reviewer is a writer, The reviewer is a writer, journalist and educator. He can be reached @chintanwriting on Instagram and X

Back to silver screen: Jan-Nov BO collection up 18%

The cumulative box-office (BO) November period of 2025, rose by 18 per cent year-on-year to ₹11,657 crore, driven by a wide variety of films bringing audiences back to

the silver screen.
By comparison, last year,
despite major Diwali releases in
November, the cumulative gross
box-office collection of the films released in the first 11 months of

the year stood at ₹ 9,862 crore.

Tere Ishk Mein, starring Dhanush and Kriti Sanon, led last month's collection at ₹143 crore, the only film to gross over ₹100 crore, followed by De De Pyaar D

In a post on X earlier in the day IndiGo said operations were affected in Delhi-NCR, Amritsar

crore, followed by De De Pyaar De 2 at ₹85 crore, according to Oraz Ar 85 crore, according to Oraz Media's monthly report. Hollywood's animated movie, Zootopia 2, was third in the box office collection list grossing ₹30 crore in November. A Malayalamaguage mysery thriller film, E80, collected ₹30 crore. No other film managed to cross the ₹30 crore mark last smouth, the sevent biblifilms. report highlighted.

Top hits Top 5 grossers in November*

Tere Ishk Mein 1 143 De De Pyaar De 2 2 85

Eko 4 30 Andhra King Taluka 5 28



eClerx **eClerx Services Limited**

COLETA OCET VICES LITTLE Registered Office and Correspondence Address:
Sonawala Bulding, 1º Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, Maharashtra, India Phone No.: 191 22 6614 6807 - Fax No.: 191 22 6614 6805 Corporate Identification Number (CIN): L'22200MH-2000PLC125319 Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary Email tic investor@cjar.com - Websit: www.cjar.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

eClerx Services Limited ("Company") has completed the dispatch of Letter of Offer dated December 18, 2025 along with Tender Forms and Form SH-4 ("LoF") on Friday, December 19, 2025 for Buy Back to all the shareholders holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Wednesday, December 17, 2025 ("Eligible Shareholders") through electronic means to those Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

Further, in terms of Regulation 9(iii) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 13416 ("SEBI Buy Back Paculations") as amounted if the Company of the Pacific Test of the Back receives a request

2018 ("SEBI Buy Back Regulations"), as amended, if the Company or the Registrar to the Buy Back receives a request from any Eligible Shareholder to obtain physical copy of the LoF, the Company shall dispatch a copy of the LoF in physical form.

The Schedule of Buy Back is as follows-

ı	The Schedule of Buy Back is as follows-		
I	Activity	Date	Day
I	Date of opening of the Buy Back/Buy Back Opening Date	December 22, 2025	Monday
	Date of closing of the Buy Back/Buy Back Closing Date	December 29, 2025	Monday
ı	Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the	December 29, 2025	Monday
ı	Registrar to the Buy Back*		1

Registrate to use any bear.
For terms and conditions of Buy Back and other details, please refer LoF.
For detailed schedule of activities, please refer to the LoF. The details of the Buy Back entitlement ratio are as follo Category of Shareholders Ratio of Buy Back (i.e. Buy Back Entitlement)*

3 (Three) Equity Shares out of every 19 (Nineteen) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date

For further information on Ratio of Buy Back as per the Buy Back Entitlement in each category, please refer paragraph 19.5 on page 30 of the LoF. ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE

BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

- Click on https://kosmic.kfintech.com/karisma/buyba Select the name of the Company - eClerx Services Limited
- Select holding type "Demat" or "Physical" or "PAN"; Based on the option selected above, enter your 'DPID CLID' or 'Folio Number' or 'PAN';
- Then click on View button: and
- The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'

The LoF shall be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in and on the website of the Company at www.enbex.com. Of the Menager to the Boy Bock at www.enbex.com. Of the Menager to Buy Bock at www.enbex.com. Of the Menager at www.enbex.com. Of the Menager at www.enbex.com. Of the Menager of the Mena www.bseindia.com.

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LoF.

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Advertisement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on October 24, 2025 and by the Buy Back Committee on December 19, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors of eClerx Services Limited						
Sd/-	Sd/-	Sd/-				
Mr. Kapil Jain	Mr. Amit Majmudar	Mr. Pratik Bhanushali				
Managing Director & Group CEO	Non-Executive Independent Director	VP- Legal & Company Secretary				
DIN: 10170402	DIN: 00565425	(ICSI Membership No.: F8538) Place: Mumbai				
Place: London	Place: Mumbai					





HON'BLE SUPREME COURT MONITORED HOUSING PROJECTS THROUGH LD. COURT RECEIVER


Executed by NBCC (India) Limited

Bulk Sale of inventory through e-Auction



Ph-IV. Sec-76, Noida, UP

Near Spectrum Mall, Noida. Nearest Metro Station are Noida Sec-50 (Aqua Line) & Sec-76 Metro, and Anand Vihar ISBT & Railway Station - 25 min.



Techzone-IV, Greater Noida (W), UF Inventory-3BHK & 4BHK spacious a

Near D-Mart and Anand Vihar ISBT & Railway Station - 35 min.



Techzone-IV. Greater Noida (W), UP with modern amenities



Techzone-IV. Greater Noida (W), UP

Near D-Mart and Anand Vihar ISBT & Railway Station - 30 min.

Last date of submission of EMD: 27.12.2025

E-auction will be held on: 29.12.2025

EMD Rs.9.70 Cr. to Rs. 20.90 Cr.

7 Packages Ranging from Rs. 485 Cr. to Rs. 1,045 Cr.

For more details, please visit our website: www.nbccindia.in | www.receiveramrapali.in Or Call: 9772907414







युग्रो कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इतिकार्यका विकास पार्था, टावर ३, ४वी परिवृत्त, बीकेसी के पाय, एलबीएस हेट, कुली (परिवर), मुंबर्ड, महाराष्ट्र 400070

शाखा के स्थानंतरण हेत् सामान्य सूचना

युवी कैपिटल लिमिटेंड (युवी) के प्रप्तकों और आम जनता को सृचित किया जता है कि आंतरिक व्यावसायिक कारणों से निम्नलिक्षित शाखा को 20 जनवर्ष, 2026 से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है और इन शाखा के पाहकों को नीचे उल्लिखित मौजूदा शाखा में ही सेवाएँ पदान की जाएँगी।

क.म.	बद होने वाली प्रस्तावित शाखा	सेवारत शाक्षा कार्यालय
L	प्रथम तल, प्लॉट नं. जी-1/3 ए, पिलर नं. 6/3, नजफगढ़ रोड, मेन उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	प्रथम एवं डितीय तल, सम्बक् टॉवर, 39 पूसा रोड, दिल्ली-110005
स्थानः सः तिथिः २०	है दिल्ली //12/2025	रस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी- वर्षो कैपिटल लिमिटेड

Edelweiss ECL Finance Ltd.

ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टॉक्र ३, विंग बी, कोहिनूर सिटी गॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), गुंबई- 400070

ई-बीटामी - 15 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना

वितीय परिशंपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत ई—नीलामी द्वारा विकय। आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता और पास्टर को सूचित किया जाता है कि नीचे स्टिलिंडित संपत्ति "जैसी है जा**ही है आयार तथा जैसी है जो है आयार पर ऋण खाता** रांड्या 1.246ECS1.P000005230066 के राज्ये में 12 सितंबर 2024 तक देय रु. 3,11,53,181.11/- (रुपये तीन करोड़ ग्यारह लाख तिरेपन हजार एक सी इक्यासी और ग्यारह पैसे मात्र) की राशि तथा राशि पर मावी ब्याज + ऋण बकाया की वसूली तक राशि पर निर्धारित विधिक व्ययों की क्यूली के लिए बेबी जाएगी। उक्त रापत्ति को नूर पींलीकीन, इर**गीत शिंह, जगजीत सिंह उपनाम जगजीत सिंह, डेक्नेस्टार, गुरलीन कौर** हारा उनके हारा प्राप्त ऋण के लिए ईसीएल फाइनेस लिमिटेड के पास गिरवी रखा गया है। प्रतिभूत ऋणदाता के पास नीचे चित्तिखत प्रतिमृत परिसपत्ति का **गीतिक कब्जा** है।

प्रतिमूत परिसंपत्ति का विवरण	सारावित मूल्य तथा पराज	नालामा का विभि एवं समय	विभिन्न पूर्व समय
स्वाभितवारक निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या 170 का दूसरा तल का याग, वें बफत 291.67 वर्ग गज, जिसमें मदन का साझा क्षेत्र शामित है, जिसमें उस पर निर्मित संपूर्ण संरक्षण हैं, अत्र / छन्जा के अधिकारों के साथ—साथ कानून द्वारा अनुमत अतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण के अधिकार, संबंधित मीटरों के साथ विजली और नल-चानी के क-नेक्शन से सुस्तिजात, प्रदेश / मुख्य द्वार, मार्ग, पार्किंग, सीटियों और अन्य सेवाओं के उपयोग के साथाय अधिकार, जो मंत्रिक में सड़ता हो सकते हैं, एविएडन एम्न्लांड्ज को-आंग्रेटिय हाउस विदेशन संस्ताइटी लिमिटेड, जिसे गणन विजल, इलाकर शाहदरा, दिल्ली—110051 के नाम से बाता आता है, के लेखावट प्लान में विवत मुख्य की मूमि पर अधिमाजित, निष्या, आनुपादिक स्वामित अधिकार संख्य क्रिक संबंधि की सीमाई (स्थाल के अनुसाएं) पूर्व सर्विस लेन 15' फीट, परिवन सहक करें पिट, जतर संबंधि संख्या 168, दक्षिण संबंधि के साथा 171, मीट — अधिक सटीक काम से दिनांक 24—12-2020 के स्थाप विलेख में उत्तिकारित, भी उप-पंजीवक कामोलय VIIIA, प्रीत विहार, दिल्ली में दलावेज संख्या 5482 वहीं संख्या 1, संबंध संख्या 1974, पुछ संख्या 162—165, दिनांक 24—12-2020, एसआइओ-VIIIA के रूप में परिवृत्त है।	क्तालस लाख मात्र) 10% क्याना राशि जन्म ७. 24,30,000/— (रुपये थीसील लाख	च-61-2008 जन्म 11 से देश 12 बजे के मन्य (5 विकार के क्सीनिया कार्य विकार से साम्ब्र)	12-05-2026 मन्या 11 से जप्त 4 बने के मन्य

टिप्पणि - 1) शैकामी विक्रम, वेबसाइट https://warfacsi.anctionliger.net के कावम से बोनाबाइन संपतित किया जानेगा और केवल में कैलिएता जो कैन ईमेल पायान सहय और पायान किया किया है कि कियानेन टिमांट इंग्यू/ एनईएकटी/अस्पीनीएम के मानमा से ईमार्थ जा विभिन्न पुरातान कर दिया है, इस "बीनाबाइन ई-मीनामी" में भाग तेने के लिए पात होंगे।
2) इसकुक बोलीयराजों को दिमांट इम्पर/ अस्पीनीएम/एनईएकटी हात प्रेमण के मानमा से निम्न के पास अपनी ईमार्थ जमा करानी होती :
सामार्थ कर नाम ईसीएस पाइनेस विभिन्न हा

को के नाम : चारतीय स्टेट कैंक, को साध्यायक कर नाम : ईसीएन क्यानेस जिमिटेंड, कैंड साधा संख्या : १९४०२००००, सरकोएकि नीतानी, (ईसीएन कव्यनेस निमिटेंड), आईएकएससी केंड : SBIN0003838,

5) ईएमधी के साथ अनितादन आंकेटन बोली पोर्न जमा करने की अधिन शिक्ष केवल 12-01-2026 को तथ 400 को तक हैं। ह) विक्रम के विस्तृत निकते और सर्थों के लिए, कृपया वैवसहर https://sarfaesi.nuctionliger.net देखें या कृपया की मीतिक कीचली से फोन ने 91-9172528227, हेन्य लाइन ई-मेल काहीं : Support@auctionliger.net, मोबाइल ने 185662881, 1971831100, 8883782145 पर संपर्क करें। इस्ताः /— (धापिकृत व्यक्तिकारी) ईसीएल प्राइनेंस लिमिटेड

वास्त्रा सूचन (अध्यल संपत्ति हेत्)

वड़ कि.

सम्मान कैपिटल निमिटेस (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पद्मले इंदिसाकुल्स हाटसिंग फाइनेस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नार्ट अधीडस्ताइसी ने मिनसीरिटाइनेशन एंड रिकन्द्रनशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिनसोरिटी हंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के सक्ष सिक्नोरिटी हंटरेस्ट (एन्फोर्सीट) रुत्स, 2002 के साथ परते हुए माप्त अधिकारी का उपयोग करके कर्नवार आलोक कुमार गुप्ता प्रीपशाइटर मेसर्स ग्रैंड स्पोर्ट्स एंड ब्रोपशाइटर कैप्टन्स स्टडी सेंटर, अल्पना गुणा और जितेंद्र कुमार कुष्ण (बारंटर) को 27.09.2025 की सूचन में कर्पन के अनुसार कर्ज खाला ने, HLAPHDW00323615 की राशि क. 76,86,019.05 (रूपये खिन्नार लाख कियासी इजार टक्सीस और पाँच पैसे पाड) और 25.09.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उकत संधना की प्राची की तारीख़ से समस्ट 60 दिनों के भीतर धुकता करने का अध्यक्ति करते हुए अभियायना सूचना चारी की थी।

धनगाणि जकता करने में केलंदारों के असफल रहने पर एतदहारा कवाँदार और सर्व मामान्य जनता को मूजना दी जाती है कि, अभौहरताशारी ने उनत कानून की भारा 13 भी उप-भारा 4 के साथ उनत कानून के नियम 8 के तहत रिक्नोरिटी हटरेस्ट (इन्फोर्सस्ट) रूतम, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.12,2025 की संपंति पर सांकेतिक आविष्यत्व कर लिया है।

बिहोबा: कर्जवरों और सामान्यत: जनता को एतदवरा संपत्ति के साथ गौरा नहीं करने के दिल सावधान किय जाता है और संपंत्रि के साथ कोई भी सौदा राशि क. 76,86,019.05 (कपने किइतर लाख क्रियामी हजार हवीस और पाँच पैसे नाव) 25.09.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैफिटल लिमिटेड (पहले इंडियाजुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिपिटेड के रूप में जाना जाता था) के आधीन होगा। डबारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपतियों का पुक्त

कारने के िए उपलब्ध समय की ओर आयंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट/ एन. वं. जो – 11 के सभी भाग और खंड, जिसका एरिया 345 स्ववं. मीटर्म., (पूर्व की और 11.5 भीटर्स., पश्चिम की और 11.5 मीटर्स., उत्तर की और 30.00 भीटर्स.और दक्षिण की और 30.00 भीटर्स.), भेल योजना रानीपुर में स्थित, फेल-॥, शिवालिक नगर, भेल, रानीपुर, इरिट्टर 249408, उत्तराखंड और नीबे दिए सीमाए निस्तुसार परिचय है:

पश्चिम : संपत्ति नं. जी 14 पूर्व : सडव 9.00 मीटर्स. वतर : संपत्ति में. जी 10 दक्षिण : संपत्ति नं. जी 12

चनी/ दिसांक: 18 12 2025 पाधिकत अधिकारी सम्मान कैचिटल लिमिटेर (पदले इंडियाजुल्स दार्डासम फाइनेस लिमिटेड के रूप में जाना जाता बा)

💆 pnb पंजाब नैशनल बैंक 🐸 punjabnational bank

एसएएमडी, छठवीं मंजिल, गुजरात भवन, एम.जे. लाड्बेरी के निकट, एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380 006. मेल: coahmsamd@pnb.bank.in

[परिशिष्ट- नियम 8(1) के अधीन] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, पंजाब नैज्ञानल बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधीनस्ताधरी ने वित्तीय संपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुतर्गंठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वं अधीन तथा बारा 13 के साथ परित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 वे अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ के प्रयोग के तहत दिमांक 09.10.2025 को एक मांग सुचना जाती की भी तथा दिनांवा 16,10,2025 को अग्रणी समाचारपत्रों विजनेस स्टैण्डर्ड अहमदावाद (अंग्रेजी) तथा जय हिन्द-आत्मदाबाद (गुजराती) में सूचना प्रकाशित की बी तथा नई दिल्ली के समाचारपओं विजनेस स्टैण्डर्ज नई दिल्ली (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संस्करण में में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कर्जदारों/गारंटरों/गिरधीदाताओं सिम्कॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री गनोज गिरंडा (निदेशक एवं गिरवीदाता तथा गारंटर) तथा श्री योगेश मोर (निदेशक एवं गिरवीदाता तथा गारंटर) तथा श्री अक्षत शुक्ता (निदेशक एवं गारंटर) तथा बीमती वैशाली गोर (गिरवीदाता एवं गारंटर) साता सं. 5194008700000118 को सुचला की तारीख/कथित सुचला की प्राप्ति की तारीख से 60 दिमों के भीतर सुचला उल्लेखित रकम के रूप में रू. 3,07,58,505.83 (रूपमे तीन करोड़ सात लाख अनटाव-हाजार पांच सौ पांच एवं पैसे तिरासी मात्र), वसूल की गई रकम, पदि कोई हो, की कटोर्ट कर, के साथ भुगतान तथा/अथवा वसुली की तारीख तक आगे के ब्याज, आकस्मिक व्ययों लागती, शुल्कों इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार/गाएंटर/गिरमीदाता हारा संबंधित रक्षम चुकता करने में विफल होने के कारण एतदहारा कर्जदार/मार्टर/मिरजीदाता तथा जन साधारण को सुनित किया जाता है वि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ प्रतित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 । नियम 8 के मंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहरताक्षरी ने 17 दिसम्बर, 2025 को यहाँ शीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर करना कर लिया है।

कर्जदारों/पारंटरों/गिरवीदाताओं का ध्यान प्रत्यानूत सम्पतियों को मृता कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/मिस्वीदाता तथा आम तौर पर जनसापारण को एतदुहार सतर्क किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई भी तीदा न करे तथा इस संपत्ति के संबंध में कोई भी सोदः दिनांक 08,10,2025 भी स्थिति के अनुसार क, 3,07,58,505,83 (रुपये तीन करोड़ सात लाख अनटायन हजार पांच सी पांच एवं पैसे तिरासी मात्र), यस्त की गई रकम, परि कोई हो, की कटोती कर, तथा सम्पूर्ण मुगतान की वारीक वरू पर तब आगे के स्थान एवं व्ययों की रकम के लिए फेलाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पता 1: भीजा ग्राम-शेला, तालका सानंद, जिला अहमदाबाद जप दिला मानंद में स्थित प्लॉक में. 259 259 पेकी 1,260 पेकी, प्लॉक सं. 261 एवं प्लॉक सं. 263 पूर्वी और की प्रमि पर स्थित "बोनार्क सिटी 2" के नाम से झात योजना में से मकान टाइप डी/1 तथ मकान में 43 परिमाप नामग 83.73 को वार्ट प्लॉट क्षेत्रफल एवं पृष्टि में अविभावित हिस्सा परिमाप 47.55 वर्ग वार्ड कल परिमाप लगभग 131.28 वर्ग वार्ड साथ में उस प निर्माण शतल एवं पहली मंजिल, सीबी, केबिन तथा छत का अधिकार परिभाप लगभग 144.28 वर्ग यह वाली अवल सम्पति का सम्पर्ण एवं सर्वांगीय हिस्सा। की योगेश विलीपबाई गोर तथा ऑमती वैद्याली योगेश गोर द्वारा मालिकानाप्राप्त । यह सम्पत्ति गिर्स्त विलेख सं. 13439/2022 के अंतर्गत सिम्कॉन इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड में गिरती है चौहदी निम्नानुसारः पूर्वः शीवरी सङ्क, पश्चिमः रो मकान सं. दी/2 टाइप मवान सं. 52 **उत्तर:** रो मकान सं. डी/। टाइप नकान सं. 42, दक्किण: रो नकान सं. डी/। टाइप मकान

पता 2: गीजा (सिम) गोपल, तालुका वस्करोई, जिला अहमवस्त्राद, पंजीवन जिला अहमवाबा एवं उप जिला अहमवाशाव-09 (धोपल) की सीमा में स्थित सर्वे स् 507+508+509+510+523 ਕੀ ਵੀ ਥੀ ਕਲੀਸ ਦੇ 3 ਜੋ अंਗਿਸ ਵਗੋਂਟ ਦੇ 174 175 ਲ 176/1 वाली पैर-कृषि वृष्टि पर स्थित "आरोडी एलीग्स" के नाग से ब्रांत गोजना में ब्रांत सं, जी में पांचवी मंजिल पर फ्लैट सं, जी-504, परिमाप 194 वर्ग वार्ड यांगी 162 20 वर मीटर (सूपर फिल्ट अप एरिया), वाली अवल सम्पत्ति के साथ आवंदित पाकिंग तथा अविभाजिता हिस्सा 50,90 वर्ग गीटर का सम्पूर्ण एवं सर्वागीण हिस्सा। श्री गनोज विक्टर मिरंदा द्वारा मानिकानाप्राप्त । यह सम्पत्ति गिरवी विलेख सं. 13439/2022 एसआरअं वीपल के अंतर्गत सिम्बॉन इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड में गिरवी है। खीडरी निम्नानसार पूर्वः भीतरी सङ्क, पश्चिमः फ्लंट सं, जी/503, स्तरः भीतरी सङ्क, दक्षिणः फ्लंट स

दिनांकः 17.12.2025 । स्थानः अहमदाबाद । इस्ता/ अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल वैंक

यूनिटी स्मॉल फाइर्नैस बैंक लिमिटेड इर कर्नाम : बर्वन सेन, वर्वन विवर, में प्रिसी-110057. # UNITY री जाने, पर्खाल, सांतापुत्र (E), जूंबर्ड 400 098

मांग सूचना घारा 13 (2) के अधीन रण और पुनर्निर्वाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिवण, ("अधिनियम") तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमादली, 2002 ("नियमादली") के प्रावधानों के क्यीन अपोहरताबारी ने **यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ('बैंक')** के प्राधिवृत अधिकारी के क्या वं अधिनियम के अधीन और नियम 3 के साथ परित अधिनियम की पारा 19(12) के अधीन प्राप्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए, अभिनिवन की भारा 19(2) के तहत मान सुवना(ए) जारी की थीं, जिनमं निम्नातिका कर्जदार्थों) से संबंधित सूचना(सी) में वर्षित राशि उनत सूचना की प्राप्ति की तिथि सं 60 दिन के मीतर चुकाने की मांग की नई थी। जबकि कुछ सूचनार अवितरित के रूप में राक टिपाणी के साथ बायस प्राप्त हो युकी हैं. इसलिए कर्जदारों को सूचना देने की वैकल्पिक विधि उत्पांत समाचा

2	ऋष साता विकरण	प्रतिपूर्व आस्तियां
1.	कर्वदार[र] का नाम : 1. आदिक एम (कर्वदार) 2. साम श्री (सट-कर्वदार) 3. मिला ए (सट-कर्वदार) 4. नाम एस (क्ट-कर्वदार) 4. नाम एस (क्ट-कर्वदार) 4. नाम एस (क्ट-कर्वदार) 4. नाम एस (क्ट-कर्वदार) 6. क्रिकेट : 22/12/2022 क्राज काम संस्था : USYEDELL/DAN00000506x500 और USYEDELL/DAN00000506x504 क्राज वर्षित : 6. 581/81/- और 6. 2/02/801/- एनवैए क्रिकेट : 10/12/2025 वर्षण वर्षित : 10/12/2025 (12-12-2025 ओ फेला मध्य) क्राज सुक्ता वर्षित : 6. /28,818,05 (20-12-2025 ओ फेला मध्य) क्राज सुक्ता वर्षित : 6. /28,818,05 वर्षण साम साम क्राज क्रव्यंतित एकर क्राज क्री साम साम क्राज क्रव्यंतित एकर क्राज क्री साम साम क्राज क्रव्यंतित एकर क्राज क्री साम साम क्राज क्रव्यंतित एकर क्राज	एक आवस्तीय प्लॉट, परिषण 111.11 वर्गण या 92.90 धर्म मीटर, खरात नंब 2272, जो आधादी करबा खेकदा वार्ट नंबर 4, मीहरता प्रेमपूरी में भगर पालिका परिषद खेकदा, राज्यीत खेकदा, किया बागपत, उत्तर प्रदेश 250101 की सीमा के अंदर रिचत है सीमाएं (बंघक/बिजी दस्तावेश के अनुसार) पूर्व सरफाराज का मकान परिषय वर्गीत पुत्र की नूरे का मकान सरात नाती पानी की दिशिण सरता 15 गीट बीदा
2.	कर्जदार्श्ती) कर नाम : । पैसर्स रामेश्वर दश्यक सेहराजा कुमार (कर्जदार) 2 अनुराज सिर्फल (क्ट-कर्जदार) 3 सागर सिर्फल (क्ट-कर्जदार) 4 सामा सिर्फल (क्ट-कर्जदार) 4 सामा सिर्फल (क्ट-कर्जदार) के सुमार सिर्फल (क्ट-कर्जदार) विकास सुमार सिर्फल (क्ट-कर्जदार)	सम्पति के सभी अंश एवं एवंट मकत के कम में अवका सम्पति पालिका संस्थ ठब्द्यू-28/51; जो मोहल्ला छन्जुपुर छपुर तामांकि और जिला सपुर उस प्रदेश 245101 में स्थित है चौक्द्र ही — पूर्व लेन 8 फीट पश्चिम राजेंद्र कुमार सियाल का मकान, उत्तर लिला का मकान, दर्शिण बनावारी लाल का मकान
	कर्जदार(री) का नाम :	सम्पति के समी अंश एवं खंड । खसर

(भागे वीचीस ताथ इकटरार हजार आठ सी अद्भातीस रामा पैसे अवासी मात) 15/12/2025 वर्ष	
कर्जदार(री) का नाम : 1. नीतम दी(कर्जदार) 2. वामित दी(कर्जदार) 3. विमाल कीवर्गे (तार-कर्जदार) 3. विमाल कीवर्गे (तार-कर्जदार एवं कंकदराव) करण काला कीवरा ESFEDELLI JOAN 000005500 6093 करण काला कीवरा करण	साम्पतित के सभी अंश एवं संद्र व्यक्त संस्था 1043, स्वता संस्था 571 का जे रूप प्लंट होजफल परिभाग 100 वर्ग गा मांव दरगल, राशसील जे जिल्ला माजियाबाद, उर प्रदेश-201002 में स्थित। जो निम्मानुसार परिश्वह हैं, सारार सुरेंदर का प्लंट द्विण सुरेंद्र और अन्य का प्लंट इंस्ट जीपरी सीरेंद्र का प्लंट परिचम सहक 25 फीट बीटी

१. राजा भहिद प्रताय परितक स्वयून (कर्जदार) 2 महाबीर सिंह (सह-कर्जदार) . दीपेंद्र कुमार (सह-कर्जदार) 4. बांचना सिंह (सह-कर्नाटार) s महाबीर अंजना सिंह यू एम विद्यालय (सह-कर्जदार एवं कंडक a. लखन सिंह (सह-कर्जदार) र राजा महेन्द्र प्राप्तप प्रश्नकार म्बनिक विद्यालय (सह-कडोदार) स्वैकृति विभि : 30/08/2023 और 22/11/2023 USFBDELLOAN000005010622 abe USFRDELL/OANODD005013608 **ब्रह्म गरित** : क. 80,85,962 / - और क. 19.44,428 / एनपेए क्रिक : 01/12/2025 बाव सूचना विभि : 11/12/2025 (13-12-2025 को भेजा गया) मांग सूचना रामि : क. 81,00,411.46 (अपये इक्कारी जन्म शिरानवे हजार भार सी म्याच्य और

4. कर्जदाव(री) का नाम :

05/17/2025-04 कर्जदासंतो का नाम : 2. व्यक्ता देवी (सह-कर्जदार) a सोनू यू (सह-कर्जदार एवं कंपकदावर) रवि कुनार (सह-कर्मदार)
 स्वैकृति श्रीवि : 21/19/2023 USFBDFLL:OAN000005013044 she USFBDFLL:OAN000005013046 स्त्रण प्रति : ६. 92/300/- और ६. 1,13,000/-एनवैए विकि : 05/12/2025 स्त्रीय सुक्ता विकि : 15/12/2025 (10-12-2025 को पंजा गया) संग सुक्ता विकि : 6. 10,28,212/-(6. दह जहां फ्लीस इन्तर दी सी TOS 400) 05/12/2025 00

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड नगरपालिका संख्या 228 वाले मकान की अवल शंपति, परिमाप 50 वर्ग गळ वानी 41.805 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 511 का हिस्सा, जो गली शंख्या 17, अंबेडकर नगर, प्राप्त मवई, परगना ओनी, वहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201009 में विषय है और निम्नानुसा परिकड़ है। चौहद्दी -पूर्व-रास्ता 12 कीट कीता परिचन – श्री प्रिस की संपत्ति

ज्**तर – श्री गोपाल की संप**ति

दक्षिण – श्री दीप चंद की संपति

unu... i sinfér au Brazur elegan

परिचल २६६ / ६३६मां जिल्ला गानि ० ७६०

रामानो विकासे को २/३ में से 1907

रेक्ट्रेयर में से. लगरा संख्या 382 के खात

संख्या 175 में से और क्षेत्रफल परिया

२०/२५१वां शिरमा गानि ०.०१३६ प्रसर्वे

विकार के उद्धार अंकार में के अवतार

हेक्ट्रेयर में से, खसरा संख्या 175 के खात

संख्या 175 में से ; 382, कुल क्षेत्रफल 0

रक्ष4 हेक्ट्रेयर, जो गांव संगीला नगल

वारी, परगन्त मुरसान और तहसील और

जिला हाष्यरस, चतार प्रदेश 204101 में

पूर्व – कुरुल पाल सिंह और अन्य का खेत

दक्षिण - नागेन्द्र फल शिंह का खेत

उतार - वालीकि आबादी

रियात है

चीहददी :-

पश्चिम - रोह

उपरोक्त बकाया राष्टि 60 (साठ) दिन की कार्की के मीतर चुकाने में असफल रहने पर, अपोहस्तक अपिनियम के प्राक्यानों के तहत उपरोक्त प्रतिमूत आस्तियां प्रवर्तित करने हेतू विवश होगा। कृपव नोट करें कि अधिनियम की पाश 13(13) के अनुसार आप बिक्री पट्टा सकता सन्य प्रकार से किसी भी प्रतिमृत आरित के शंबंध में संव्यवसार अथवा उसका अंतरण नार्प कर सकते हैं। इस प्रावना का चललेंगन एक अपराय है तथा अविनियम के तहत दंखनीय है।

मांग सूचना की प्रति जमोहस्तावारी के पास उपलब्ध है तथा कर्जदार, यदि दे ऐसा धार्हें, उसको अपोहस्तादारी से किसी भी कार्यदिक्स को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान प्रान्त कर सकत है / शक्ते हैं।

स्थान : दिश्मी तिथि : 20–12–2025

यूनिटी स्पील फाइनैस बैंक लिमिटेड

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank DEL NO: ADBOBTA PHARM TIOSO DURLAND AVE NE SEATTLE WA 98125 USA 폐 俸

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि श्री हर. अरुण भट्ट पु बी डा. बाल कियान भट्ट पुस्तपीट संख्या AB153762

आवासीय भूखंड संख्या A-126. सेक्टर-27, भीएंडा ज़िला गीतम बुद्ध नगर् उत्तर प्रदेश क्रिकल 300.00 वर

मीटर में संयुक्तरूप से स्वामी हूँ वर्तमान में उक्त भूखंड में मेरे साथ स्वामी 1. सुरेंदर कीत 2 गिरिज कीत एवं 3 संबीद भट्ट हैं, में उक्त भूखंड में से अपना हिस्सा भी संबीद

भट्ट जी को दे रहा हूँ जिसकी SPA मैंने श्री साबुर भट्ट जी के पक्ष में कर दिश्य है जो कि दिनक 18/12/2025 को माननीय उपनिबंधक नीएडा में पंजीकृत की गई है।आवासीय भूखंड संख्या A 128, सेक्टर 27, नीएडा जिला गेलम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश क्षेत्रकल 300.00 वर्ग मीटर में से मेरे भानी अरुण भट्ट का विस्सा की संजीव भट्ट पुत्र भी A. K. भड़ निवासी A-128 सेक्टर-27 नीयडा के पक्ष में नीयडा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। पदि इस सम्बन्ध में किसी भी ज्यक्ति को किसी भी प्रकार की

श्रपति है तो कृपया अपनी आपति समक् साक्ष्य सहित नीएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग में इस जूबना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर दाखिए

कर्नदार, सह-कर्नदार/जमानती(ओ) का नाम और पता

BAVE

HILI स्वना के पास, नीलम-बाटा रोड, फरीदाबाद

जबकि, केनश केंक के माजिकत अधिकारी होने के नाते अजीतस्तालयें ने सरफेसी अधिनियम 2002 की बाश 19(2) के तहत क्यारकर्ता / नारंटर /कंपकारतं को नीचे चरिक्तिकत मांग नोटिस खारी किया है, जिसके परिनामस्तकाप पंजीकृत जाक के माज्यम से प्रत्येक नोटिस नेजा जाता है और इस प्रकाशन के माज्यम से क्यारकर्ता / मारंटर / कंपकार्ता के बते से बिना किसीवर किए बापस सीटा दिया जाता है, उन्हें नोटिस प्रकाशन की तारीक से 80 दिनों के मीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर, कैंक अधल और चल भोपति का कबता से लेगा और सुख्या हित (गामांकन) निवम 2002 के निवम है और ६ के साथ परितत बारा 13(2) के तहत प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे प्रक्रिया के मध्यम से केय येगा। विशेष सम से

ड्यारकता / गान्टर / क्यककता आर आम जनता ताई गई चल / अघल संपत्ति / यों से कोई भी लेन			
ख्यारकर्ता/गारंटर का नाम एवं पता	चल/अवल संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार देव चार्वा	मांग सूच- की तिथि
क्षतीयानाय सेक्टर-21-सी शास्त्रा	वाहण व्या विवरणः G VITARA SMART HYBRID ALPHAAT	च. 11,33,042/— (च. ग्यारह साख तैतीस हजार बयासीस मान)	12.12.202
	चित्रस्ट्रेशन नंबर और तार्केक HRS1CK1245 करोब 08.08.2023 इंप्यून सं. KISCH7071791 चेत्रस्ट अंक्ट.MRJTYKJ.ISPA117597 चेत्र प्रकट संग्रीटियात स्तू	साथ में आगे का ब्याज और अन्य खर्च, लागत	एनपीए वं तिथि 11.12.202
Ourier, on se ones, some, restament		en Bour	a california

संपरितयों का विकास और मालिक(ओ)

सेव फाइ नेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.

"परिकिष्ट-IV-ए" [देखें निदग क्(s) का प्राथवान| अवल संपरितयों की बिक्री के लिए विक्री नोटिस क्रीरिट और पंजेषुक्र करतीयाः दुन्दिः ने तक नेपी जल, नेपाल पील, प्लीट नं व, सेक्टर 10, हारका, पई Rodt mours

फेंडल पुत्र तारक फेंडल 2 करीक फीट्टी **कार्य, उपने फालिक की करील फेंडल** कंपिल लं. 1 - वारियनिक कंपिल करील किरोक काता नंबर 122, बारावा नंबर 232 मिन एटिया बाब 1020 कर कुट या 12.12 मी पीटर नीव संदा राफिर की राजनेट पूर्व विक्रंता की करीन, परिकार सामेन संदान की करीन, पानर विक्रंता की करीन, पीरिकार की करीन (कार्ब का प्रकार – साकेटिक) ин исеви чееде бом эти вы ние иниейс экспект

लक्षित कुल (करवें) और ईएनदी और कुद्ध तांत वसूनी चरित मांग नीटिस के कनुस्तर संग्रीत के स्रोन-साइट निरीक्षण की विकि व समय 20:01:2026 (T21:01:2026 TFF 22.01.2026 - पूर्वी. 10.00 से अप. 12.00 एक त्र, २०,००,१००८- और क. २,००,०००८- और क. १०,०००६- क. २०,१६,६६०७ र विशोक ७० स्रोति २००४ तक पूर्वी. 10.00 से अप. 5.00 तक (प्रत्येक 5 बिनाट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ)

पूर्वी साति एर्ट्यूपार्टी/आर्ट्यिक्ट्या/कंड अंदरण में काल से 'केर पहास्तिक समिति आईस किरिटेट के पत्त में मिस सो आएंग, केर सात संकार अवस्तावक अवस्तावक के का पहास्तिक अवस्ति केर में अपनी अवस्तावक केर का स्वाद्या केर प्रतिक के अपनी केर मात्र केर प्रतिक केर मिस सो आएंग, केर सात संकार अवस्तावक अवस्तावक केर केर मात्र के

eClerx eClerx Services Limited

Registered Office and Correspondence Address: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, Maharashtra, India Phone No.: +91 22 6614 8301 • Fax No.: +91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319 Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary Email Id: investor@eclerx.com · Website: www.eclerx.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

eClerx Services Limited ("Company") has completed the dispatch of Letter of Offer dated December 18, 2025 along with Tender Forms and Form SH-4 ("LoF") on Friday, December 19, 2025 for Buy Back to all the shareholders holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Wednesday, December 17, 2025 ("Eligible Shareholders") through electronic means to those Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

Further, in terms of Regulation 9(ii) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("SEBI Buy Back Regulations"), as amended, if the Company or the Registrar to the Buy Back receives a request from any Eligible Shareholder to obtain physical copy of the LoF, the Company shall dispatch a copy of the LoF in

The Schedule of Buy Back is as follows-

Activity	Date	Day
Date of opening of the Buy Back/Buy Back Opening Date	December 22, 2025	Monday
Date of closing of the Buy Back/Buy Back Closing Date	December 29, 2025	Monday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buy Back*	December 29, 2025	Monday

For terms and conditions of Buy Back and other details, please refer LoF.

For detailed schedule of activities, please refer to the LoF. The details of the Buy Back entitlement ratio are as follows:

Category of Shareholders	Ratio of Buy Back (i.e. Buy Back Entitlement)*
Reserved Category for Small Shareholders	3 (Three) Equity Shares out of every 19 (Nineteen) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other Eligible Shareholders	3 (Three) Equity Shares out of every 121 (One Hundred Twenty One) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date

of entitled Equity Shares using the above ratio of Buy Back may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buy Back Entitlement for reserved category for Small Shareholders is 15.8352926868818% and general category for all other Eligible Shareholders is 2.48039298949663%. For further information on Ratio of Buy Back as per the Buy Back Entitlement in each category, please refer paragraph 19.5

on page 30 of the Lot ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE

BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

- Click on https://kosmic.kfintech.com/karisma/buybackofferv2.aspx; Select the name of the Company - eClerx Services Limited:
- Select holding type "Demat" or "Physical" or "PAN";
- 3)
- Based on the option selected above, enter your 'DPID CLID' or 'Folio Number' or 'PAN'; 4)
- Then click on View button; and
- The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'. The LoF shall be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in and on the website

of the Company at www.eclerx.com, of the Manager to the Buy Back at https://www.emkayglobal.com/offer-documents. aspx, website of the Registrar to Buy Back at www.kfintech.com and of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LoF.

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Advertisement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on October 24, 2025 and by the Buy Back Committee on December 19, 2025.

For and on	behalf of the Board of Directors of eCler	x Services Limited
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Kapil Jain	Mr. Amit Majmudar	Mr. Pratik Bhanushali
Managing Director & Group CEO	Non-Executive Independent Director	VP- Legal & Company Secretary
DIN: 10170402	DIN: 00565425	(ICSI Membership No.: F8538)
Place: London	Place: Mumbai	Place: Mumbai

Date: December 19, 2025



Business Standard Insight Out



भारत को-ऑपरेटिव्ह बॅक (मुंबई) लि. (मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक) मध्यवर्ती कार्यालय : "महतामिरी", प्लॉट क. १३/९७. सोनावाला रोड, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - ४०००६३. फोन :- ६१८९००८८ / ६१८९०१३४ / ६१८९००८३.

कब्जा सूचना

ज्यासवी.

निम्नस्वाक्षरीकार, भारत को-ऑपरेटिव्ह बॅक (भूंबई) लि. चे प्रधिकृत अधिकारी या नात्याने विक्वीरतक्षेत्रन अन्त रिकन्टक्यन ऑफ फावनश्चित्रल ऑवेटव ॲन्ड एफोर्वार्येट ऑफ मिक्युपिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि ऋलम १३(१२) मिक्युपिटी इंटरेस्ट (एप्पोर्मपेंट) हत्स, २००२ सहवाचटा निवम ३ अन्त्रो प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १२,१२,२०२४ रोजी मागणी सूचना जारी करून मुख्य कर्जदार: बीमती पूजा प्रसाद राषे, संयुक्त/सह-कर्जदार: श्री. प्रसाद शशिकांत राणे यांना ०८.१२,२०२४ रोजीच्या मुक्नेतील नमूद रकम ह. १५,२१,२८९/- (रुपये पंचरा लाख एकवीस हजार दोन्डो एकोणनव्बद मात्र) पुढील व्याज आणि त्यावरित शुल्कासह या रकमेची परतफेड सदर सूचनेच्या प्राप्तीच्या ६० दिवसांत करण्यास गांगिवले होते.

सदर कर्बदारांनी धक्तित रक्षम न भएन्यामुळे, या अधिसूचनेद्वारे सदर कर्बदारांना तसेच सर्वसामान्य वनतेम कळविण्यात बेते की, अतिरिक्त विल्हा दंशधिकारी, पालघर वांनी प्रकरण क्र. ११०५/२०२५ मध्ये दिनांक २०.११.२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंगलबजावणीमध्ये अधोरवासरीकरणीने, पटर काणदाच्या। अधोलिखित मिळकतीचा प्रत्यक्ष कव्या अधोगासरीने मदः काथधाच्या कलम १३(४) तसेच सदर नियमांच्या नियम १ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १७ डिसेंबर २०२५ रोजी घेतला आहे.

विज्ञेषतः सदर कर्बदार आणि सर्वसामान्य बनतेस याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकतीशी कोणताही व्यवहार करू नमें आणि सदर मिळकतीशी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार हा भारत को-ऑपरेटिव्ह बैंक (मुंबई) लि. च्या रक्तम ०८.१२.२०२४ रोबीस ह. १५,२१,२८९/-(रुपये पंचरा लाम्ब एकवीस हजार दोनशे एकोणनव्यद मात्र) । समेच्या कर्जावरील बोजाच्या अधीन असेल, तसेच त्यावर पुढील न्याब/शुल्क देखील लागू होईल

मिळकतीचे वर्णन

फ्लॅट क्र. ही/२०४, मोबमापीत चटई क्षेत्रफळ ४९.५७ चौ. मीटा, जो पालधा तालुका आणि बिल्हा, नोंदणी उप-बिल्हा आणि बिल्हा पालधर, पाठचे वेचील पाठचे गावातील सन्हें क्र. १३० वरील बर्मिनीवर बांधकाणीत "सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स" म्हणून ओळशाल्या बाणाऱ्या ज्ञात इमारत क्र. २, डी विगच्या दुसऱ्या मजल्यावर स्थित आहे, ज्याची मालकी श्रीयती पूजा प्रसाद सामे आणि भी, प्रसाद प्रक्षिकांत राणे वांची आहे आणि ज्वाच्या सीमाक्यदता शालीलप्रमाणे आहेत: पूर्व: ए विग/मोकळा प्लॉट पश्चिम: बी वज्ञोमती इमारत

उत्तर: एका दक्षिण: मोकळा प्लॉट दिसांक: १७.१२.२०२५

विकाणः पानधा

जाहीर नोटीस

सर्व लोकांस या जाहीर नोटीशीने कळविण्यात येते की. आमच्या आशिलांन सांगितल्यावरुन आम्ही, **मे. एच. ए. ॲन्ड आर. एंटरप्रायझेस**, भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२ अन्वये नोंदणीकृत भागीदारी संस्था, व्यवसायाचा प्रमुख ठीकाणाचा पता - बिल्डींग ने ९, सेंटल आईस अन्ड कोल्ड स्टोरेज, साब सिद्दीक रोंड, पॉल्टन रोड जवळ, मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ००१ यांचे खाली परिशिष्टात वर्णन केलेल्या भाडेपद्रशाच्या भुखंडाचे आणि त्यावर स्थित इमारत मिळकतीचे (ज्यास एकत्रितपणे **"सदर मिळकत**" असे संबोधले आहे। हक्क, स्वामित्व आणि हितसंबंध तपासत आहे.

तरी सदर मिळकत किंवा तिच्या कोणत्याही भागाच्या बाबतीत अगर तिच्या हिश्श्याच्य बाबत कोणत्याही व्यक्ती/व्यक्तींचा अथवा इसम/इसमांचा कोणताही कोणत्याही प्रकारचा विक्रीच्या मार्गाने, अदलाबदल, तारण, गहाण (संपाश्विक/कोलॅटरल किंवा अन्य कोणतेही), चार्ज, बक्षिस, न्यास, वारसा, टेनन्सी, ताबेकबजा, भाडेपटटा, पोट भाडेपटटा, लायसन्स, लिन, वहिवाटीचा हक्क, येण्या जाण्याचा रस्ता, भोगवटा हक्क, कुलम्खत्यापत्र, कंत्राट, सांमजस्याचा करार, कौटुंबिक व्यवस्थापन, कोणत्याही कोर्टीचा अंवार्ड अथवा हुकुम, लिसपेंडन्स, मनाई हुकुम, स्थगिती आदेश, जैसे थे परिस्थिती, ॲटेंचमेंट, आरक्षण, विकसन हक्क, एफएसआय/टीडीआर, भागिदारी, सह उदयोग, सह विकसन किंवा इतर कोणतेही देणे किंवा वचनबध्दता किंवा कोणतीही व कोणत्याही प्रकारची मागणी किंवा अन्य कोणतीही हरकत/हरकती असतील तर ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून १४ (चौदा) दिवसांच्या आत लेखी हरकती संबंधीत कागदोपत्री पुराव्यासह खाली सही करणार यांच्या १२०१; गिरिराज टॉवर्स, प्लॉट क. ५, सेक्टर २०, रोडपाली, नवी मुंबई ४१०२१८ (email: shrikant.kherkar@gmail.com) या पत्यावर कळवाव्यात ही विनंती. याप्रमाणे मुदतीत हरकती कळविण्यात असफल ठरल्यास सदर नोटीसीत नमुद सदर मिळकती संबंधी जे कोणते क्लेम/हरकती असतील ते अशा व्यक्तीने/व्यक्तींनी सीडले व/किंवा त्यागले आहेत असे समजणेत येईल,

संदर्भित परिशिष्ट ("सदर मिळकती")

नवी मंबर्ड महानगरपालीकेच्या हृद्दीतील, शिरवणे एमआडीसी गाव हृद्दीतील, टीसीसी इंडरटीयल एरीया, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र येथील भाडेपट्याच्या **भूखंड कं**. डि - १८१, मोजमापानुसार क्षेत्रफळ ४,६०८ ची. मी. तेथिल तदर्गभूत आणि त्यावर स्थित कारखान्याची इमारत क्षेत्रफळ ३,३९५.७३ चौ. मी. बिल्टअप क्षेत्रावरिल मिळकतीच्या चतुसिमा खालीलप्रमाणे

उत्तरेस : भूखंड कं. डि-२ दक्षिणेस : रस्ता पूर्वेस : भुखंड कं. डि-१८०

पश्चिमेस : भूखंड कं. डि-१८२/१ ते १८२/५ आणि एमआयडीसी रस्ता

तारीख : २० डिसेंबर, २०२५

श्री. श्रीकांत म. खेरकर **अंडव्होकेट**

ताबा सूचना

THOFC BANK

सरी/

प्राधिकत अधिकारी

एचडीएफसी बॅंक लिमिटेड

शास्त्र: एवडीएक्सी स्पेन्टा-आलीएम डिपार्ट, २रा मजला, एवडीएफ्सी बैंक हाऊसच्या बाबुला, प्रकादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-४०० ०१३. दूर.: ०२२-६६११३०२०.

बोंदः कार्यालयः एचडीएफसी बैक लि., एचडीएफसी बैक लक्ष्म, सेनापती वापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई ४०००१३.

सीआवएनः एल६५९२०एमएच१९९४पीएलसी०८०६१८ वेबसाईटः www.hdlc.bank.in न्याअवीं, **एचडीएफसी बैक लिमिटेड** (पूर्वीची एचडीएफसी लिमिटेड दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशाअन्तवे सन्मानीन्य एसाएलटी-मुंबई दूरे मंखुर एकत्रिकरण गोडनेच्या आधारे एवडीएमसी बैक लिपिटेट सह एकदित) (**एवडीएफसी**) च्या प्राधिकृत अधिकारी/चांनी सिक्पुरिटायद्वीशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनाज्ञिञल ॲंग्रेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंट्रेस्ट अंक्ट, २००२ (ग्रह्स अंक्ट) आणि कलम १३(१२) सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सनेंट) रूल्स, २००२ ग्रह्मचाचा नियम ३ अन्वर्ष प्राप्त अधिकारांचा नागर करून सदर अंक्टच्या कलम १३(२) अंवर्गत हालील कर्बदार/कारदेशीर वारमदार आणि कारदेशीर प्रतिनिधी गांना त्यांच्या संबंधित नावासमीर नम्द रक्रमेसह सदर सूचनेमधील नमूद्नसार वसुली आणि/किंवा प्रदानाच्या तारक्षेपर्यंत प्रयोज्य दराने त्यावरील न्याब, अनुर्पिक छर्च, परिन्यप, प्रभार इ. ही एकम सहर सुचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसति परतफेड करणसमाठी बोलाविण्याकरिता मारणी सूचना वाग्री केलेल्या आहेत.

祝.	कर्जदार/कायदेशीर वारस आणि कायदेशीर	उर्वरित वकवाकी	मागणी सूचनेची	तान्याची तारीख	स्थावर मिळकत (तीं)/
死.	प्रतिनिधींचे नाव		तारीख	आणि प्रकार	तस्था महाचे वर्षान
¥	श्री, विश्वकर्मा संतोष शंभू (मयत असल्यापासून) यांचे पत्नी/मुलगा/मुलगी आणि श्री, विश्वकर्मा संतोष शंभू (मयत असल्यापासून) यांचे इतर ज्ञात आणि अज्ञात कायदेशीर चारम, कायदेशीर प्रतिनिधी, उत्तराधिकारी आणि अधिदर्शीकरती सी, विश्वकर्मा प्रती संतोष श्री, विश्वकर्मा संतोष शंभू (मयत असल्यापासून) (यांचे सह- कर्तदार आणि कायदेशीर वारसद्शराच्या समतेत)	5. २५,७३,०११/- ३०-बोर्ल्ड-२०१४* रोबीस	२३-डिमें२०२४	१८-डिसें-२०२५ (प्रत्यक्ष ताबा)	फलॅट-२०४, मजला-२, विंग-डी, राय पॅराडार्डेब, स. फ्र. ३, एचएन १,२,५, एसएन ३, एचएन ३/२, कैलाग नगर, ग्रंकर पावशे शेड, कमलादेवी कॉलेबच्या मागे, काटेमानिवली, कल्याण पूर्व- ४२१३०६

*सह वसुली आषि/किंवा प्रदानाच्या तारक्षेपर्यंत उपार्वित प्रयोज्यनुसार पुरीक्त व्याव, परिव्यय आणि प्रभप्त, इ.

त्रवापि, वैषे वरील नमूद कर्बदार/कावदेशीर वाध्यदार आणि कावदेशीर प्रतिनिधी वकीत रकमेची परतपेड करणाम अग्रमर्थ ठरल्वाने, विशेषतः वेधे वरील नमूद कर्बदार/कावदेशीर वाध्यदार आणि कलदेशीर प्रतिनिधी ओषि सर्वधामान्य बनतेस बाद्दरे सुनना देण्यात येते की, एनडीएफसीच्या प्राधिकृत अधिकान्यांनी वरील वर्णन करण्यात आलेल्या स्थावर मिळकती(ती)चा/तरण मर्ताचा ताना त्यांना सदर अधिनियमच्या कलम १३(४) अंतर्गत सहराचता सदर नियमवलीच्या नियम ८ अन्यो त्याला/त्यांना प्रदान करणात आलेल्या अधिकारांचा वागर करून वरील नमूद तारक्षेय घेतला

विशेषतः वेषे नमट केलेले कर्यदाः/कार्यदेशीर वारसदा आणि कार्यदेशीर प्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य चनवेस वादारे इतारा देण्यात येतो की, उपरोक्त स्थावर मिळकती (ती)/तारण मतांशी कोणताही व्यवहार करू नवे आधि प्रदर स्थावर मिळकती (वी)/वारण मतांशी करण्याव आलेला कोणवाही व्यवहार हा एवडीएफसी च्या गहाणाच्या अधीन राहील.

कर्वहार/कारदेशीर वारसदार/कारदेशीर प्रतिनिधी शांचे लक्ष तारण मतः विमोचित करण्यासाठी उपलब्ध केंद्रेच्या संदर्भात अधिनिवमाच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (८) च्या तरतुर्दीकडे वेधण्यात वेत आहे.

पंचनामा आणि वस्तुसूचीची प्रव निम्मस्वास्टीकारांकडे उपलब्ध आहे आणि कर्बदार/करादेशीर वारसदार/कार्यदेशीर प्रविनिधी यांना सर्वधाधारण कामकावाच्या वेहेट कोणत्वाही कामकावाच्या दिवशी निम्नस्वाक्षरीकारांकदुन संबंधित प्रत प्राप्त करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

एचडीएमसी बैंक लि. करिता

ठिकाण : मुंबई प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : १९ डिसें, २०२५

नोडण्ड –tv-ए-स्थापर विजकती(तीं) चा ई-स्तिलाय-नाहीर विक्री सूचना (a) pnb Housing विकार के प्रश्निक हैं देनेदर (इन्सोर्केट) काम, २०२१ जा मिला (६)) वा में हुवा प्रशासका निकारित को कि किन्द्राकर और किन्द्राकर के किन्द्राकर के किन्द्राकर किन्द्राकर के किन्द्राकर किन्द्राकर के किन्द्राकर किन्द्

ans, Male way, we do no not addition as fall the mentar (1994), july 2000, sparry, was under a file or out, the most discussed, with a title, beat/out, really demand, or other, control

कोपणान बात ताही विशे कार क्या क. "ह" पूर्व इर्किनेना करोड़ आँच कार्यक्र वांत कुट्टी यूना ऐपांड के थी, ने. पेड़ाओं इक्सीय प्रतान किसीय हानिक मानिक कार्यक कार्योक उपलब्ध करना विशे हान्य की कार्यक कार्य कार and absenced it will control or other edge (speed) and the control of the control thecam गणे हिलेती दिन बचती. त्य विविद्येत् काली पार्कीची नेक्द्राईट प्राणकेन **सामा**क्ष

कर्त क., कर्तरार/ मह-कर्तरार/ बाग्देनरार/ काग्देनरा राग्य कर्तर तथा (१)	व्यक्तिती १४६५ असि शरीब (बी)	कल्याने नकम्प (यो)	पहास विकास ति । जार्यः (सी)	राजीत सिमा (स. क्रि.) (स)	1. 35. t. (et. His. ver t-36) (qu)	बोली माहर क्रम्माची जीवेग कारिक (बी)	बोली कर विश्वाचा स (एवं)	विविज्ञानी वार्तिक अभि वेड (अप)	विकासकी समित्र अधि चेल (वे)	इस्त मात्र/ कोर्ट केवेस असम्बद्ध (के)
एक्जोब्/केक्क्स्न/०४१५/२००२५२ ज्ञानेक वेट्स्ट्राम मुक्ता / विद्या वेदस, सावत : क्रमाम	E. TOGHCOLAN STATE THE PROPERTY	200 200 200	पर्यः इ. १०६, एवः प्रकारः अवस्थः अवस्थिः रिटनका (पूर्व), प्रतुप्तको इतिपाल कारः, वार्चे, पहास्यः, १९९६ ० वार्चे, प्रकारः	E. Nillane	Th There	it/st/tota	E. To,ree	Paret della g. (dese d gentre	H-et-lein Geberk Geber	मार्थि क्यो
रुवजीष्/केंग्रलकः/नगरंट/५६९१८८ विद् पी. क्षत्रवः/ विजी आर. कावतः, सन्तरः : कावाय	9.415.677.49 3104 74-43-7474	3/40	कार्ट क. २०५, राज प्रकार, पानी संकृत, अपनीत, कार्य क. २०५, पान भीवाले, कार्यन, राजे, महाराष्ट्र, ४२०१०१ राजे, माला	E. Eletere	T. trotoe	₹1/+t/₹+₹k	tr.ess	the et iving Sitter il Secre	ft-at-tody g-oken d g-oken	परिशेष सर्वे
एक्कोन्/केन्स्तर/०१२०/८१७७१४ सूनम महेद तांवे / मरीका महेद तांवे, सावत : कामान	9.3041937.41 arfe 13-44-2491	5/44 44E	पति छ. १७४, १मा मनता, बीर फेट ३, पान पार्ट प्रीम्थायन्, बालाम् (व्यक्ति), बालाम्, बालान्, ४११५०, अने, पातः	E. Milann	T. TSARee	71/-1/7-14	E. Er,ree	ou or foil Eliboral Posso	H-1-lein geterd geber	मधिते सर्वे
स्वजीव/स्वयूष्य/नागः/८५७१०७ इत पुरव विजा / बांवर बांवर, जावा : पुंचां	9.784A14e.3 30f6 23-13-2+24	3746 646	क्तंद क, १०१, रेज प्रस्ता, व्हेनिंद, व्हेनिंद पर्व, वर्ज क, रेज रे, पान क्लिटी, जनक्रीमा (प्रिन्थ), दाने, महारूट २०११ ०४, दाने, पात.	t. Pettore	E. PAGer	27/et/2=44	B. Dayers	equations gathering	that tell geter it geter	चर्चनी स्त्री
एकानेप्/केन्स्स्य/रे-रेप/१५२८२ वैलेस सकारम करण / सरकी वैलेस कर्ष, साक्षा: कानाम	E.TVERSEQ.17 mile 13-re-7978	3/98 648	बहिता प्रस्त १ २०१, बहिता करू, तिथी कर्षे हा १११, पत बहुतत्त् कराम, बहुतत्त्व केतिह श्रीमानवर, तमे, पहाण्ट्- ४११५०३, पता	t. trans	tanin.	31/-1/2-34	t.	scotting gitterd gener	that lain gatardy abor	गार्थिते वर्ग
य्वजीव्/केदलस्त/१२२०/८४४१७३ ऐतंतर इस्तेत दिस्ताल / जनिती युवदेव विले, सामा : क्रमान	Education officers to the rest	5:48 4×2	जिंग १, औ.स १.०, विकेश दिक्कण, सार क. १. १, तम व्हेंस्टब्ले, ख. बर्जर, क्यार्थ पेट्रोल पंचाचा गर्ग, बर्जर, पहारफ्: ४१०१०१, मार.	E. tvct	tott	41/41/3+4k	t.	ot at his Stand Secon	H-st-dedge Situe A Sekse	मार्थि वर्ष
गुराजीयु/टीम्बस्/०३२१/८४५४४५ वर्णती वेदिहास सेटका / पेड़िहास इंग्लिट सेटका, सामा : क्रमें	8.751344C.0C 3086 54-53-3433	3/48 44d	gir ang judita. 1). Ha ma alam, e, gar ang sakita. 1, ne a 111, 111, 112, 111, 1111, 1111, 111, 11	N. Sections	E. Tector	11/+1/2+1s	B. Be,ene	thetelela geteeld getee	it-at-laig gatasii gailas	चरित्री वर्त
एक्कोप्/रीएक्प/०५१६/३६०४८/जोक्क रोत पता / अस्तिनी प्रशास कोपणे, सामा: समें	E. \$377676.34 arfib 27-43-7476	244	पहेर हा. ११-१, ११वा घटना, वी बिन, विशिद्ध का. ५, जु होन पेन्द्रहेक विशिद्ध, देशता र, स्त्रीवत होती, पान दोलो, विद्या (परिच्या), उसे, स्वतृत्वकृत करों कर, साला.	E. Popuss	E. 144400	71/-1/2-14	E. Tr,ree	that folk greadg	ii-at-lain Çoiread Çoirea	मधित सर्वे
रकारोग्/टीरका/+११८/४००००५ केन्य वंद्रा संदर्ध / अमील अर्थ्या नवाचे, साका : क्रमें	8.5204591.45 aside 25-43-2424	3/40 446		1. 2196	E. Plane	it/et/iees	8. 1×,+++	short-tolk getter å genre	it-ot-toik gotion d gotion	चरित्री स्क्री
स्त्रवाल/बीडोम्पडार/११२०/८५२६६० पृथेल कुमा विश्वन पति / बद्धा प. पति, सामा : बोर्गुमा	E. Partition, 47 andle e4_te_pest	\$44 446	पुरस्ता क. ११, की जिंत, कर घटना, प्रकार करें बीएनवालून, जू जिंत. चैद, स्थानकेका (पूर्व), उन्हें, बहुबार्ट, ४-१३-१, काल.	1. 31eens	E. Speece	31/-1/2-34	1. te,000	ou ot tolk gibood govern	ti at-lain gatead gaise	गार्थिते सर्वे
सकतीन्/केम्बलस्य/०३२२/१६६४९९ विभोद मी. दुवे / उन्होतस्य विभोद दुवे, सावतः सम्बद्धाः	6.1941114.48 arit et-et-2014	2/44	१०६, इन प्रकार, इ.सि. १४४ आपन, नवी दंग पेट, लोकीसी, करवाडू, १९१५, १९१५, १४४, प्राप्त,	E. Tectors	E. Section	11/-1/2014	E. Le,ees	on at inin Stiered Potes	ti-st-tein geten dig okon	महिली कर्त
एकओष्/परमावी/२११८/५४५८२६ प्रयद किया / अवस्था बातूर, माखाः स्वी पुंची	Enconcerer selfe to-tt-resv	5/4/8 4/4#	विभिन्न क. ने, जिस की, १, १०४, महत्वीर प्रवेशी (इसका क. १, २, ४ अस्ति १/), पात्रक कर्षों क. १वी, तार कीट, वातुवा पात्रीत, चीट कंपांज्यकार, समझ (४.इ.१), महत्त्वर, ११० १०६ मात्र.	E. 300000	E. 1667	41/41/4+4k	t.	ot of feit 51 hood 5 occor	it-et-tein geberd gebergud	स्त्रित वर्त
रमाजोष्/जोक्तकेषी/न्धरंग/४०१२५२ कविता जानेक घटील / युग्न दीवक कार्य, साम्ब : चाटकोपा	E. HERBERE PA Unfil E3-45-2478	2000 0000	वर्तीका कुंक रे, ४, ४०३, वर्तीका कुंक रे, प्लटक, ४५, वेक्टर रज्ये, उत्तरे, वर्ते कुंक्ट, प्रत्येक, प्रत्येक्ट, ४१०२०६ प्राटट	E. 137mm	E. 151+++	77/47/2014	tr.	equations gettend general	that tell getterd getter	पर्वति भी
एडजीप्/टीएवर्/१११६/००८५२२ कीर सर्वेदाय समाप्ती / विकिती और समाप्ती, सामाः दार्चे	E. PfEtere. Pe anim te-ec- Pers	348 948	कुरात दर्शन विकास का तर, २.०. १००, ०, दुस्ती दर्शन, विदेशन का ८०/११, ८०/११ १० १वी , १४/१/१४, समायसम्बद्धाः स्टब्स्स करेत, विकास समाय, विकास करितेकाल, उन्ते, स्टब्स्ट, ४०११० र सार्थ	E. Tellhore	E. In 7ker	H-1/2-75	E. 10,000	en et leig Etteelig ettee	it-et-tein Letrods etro	mijd nd
रकार्तन्/परणवी/११२१/५२१४४२ संबद विकास विकासीसंबी / सार्वर दुंतर, सामा : स्वी पूंची	4. 24/05/34 Julia 06-04-2073	3/40 44E	पटी क. २०१, स्थापकतः, विविद्याकः, ११, दान क्षाप्तेतः ।, एक्टा प्रेक्तः पेकाः, क्षीताने, प्रकोशः, वर्षा पुन्ते, स्थापः (य.स.), सहारहः, ४१०७०। स्थारः	S. eyeteee	E. Theler	₹/+t/₹+₹£	8. 1×,+++	ne-ot-tois gettonis govern	if-ot-toik Çokoo dig odise	यदेशी सर्वे
एकानेप्/क्षेष्ट्रकोत्मी/०६१५/७६१३८६ प्रमास संस्टेश स्थानी / २५२ प्रमास स्थानी, साका : प्राटकोमा	8.5568536,38 arith 13-55-2998	5/48 648	परि हा १०६ एक करण, विश्वास अवस्थि, सुंदर्शन, जेवाम (६.) जर्म, प्राप्तक, ४१९७० वर्म, बाह्र,	E. Eckere	E. Toxin	71/-1/7-14	E. Le,ees	or or foil greening ores	H-H-lein eizegi Çeize	मधित सर्वे
श्वजोष्/बेज्ञबर/०३१५/६६१२८७ विश्वीत बालको गाउँ / बेठन बालको गाउँ / प्रोडकीनी गाउँ, प्राप्ता : ब्रज्यबर	E. PHIEVELIA SOR TO-PE-PORY	\$16.0 \$16.0	जिंग ही, २, २०६, ०, पाठव विकेशी, जीव पाठव कर्नु ८१, पाव विकास, कृतका बरुवार प्रशिक्त व्यक्तिक, सीमोर करीवना, पाठवर, ४१९०० वेंगे विका, पाठ्य,	F.	E. Tecles	71/41/2-74	t.	sh-ot-foit g-th-od g-eco	Hat-leis Gatas il Satas	महिती करे
ष्ट्राजेम्/केन्त्रसः/-रिपः/५३०५५३ प्रमाणका/केन्त्रस्य/-रिपः/१०५१६५८ रेका समी / अधिनाम कुमार, सामा : कुम्मान	E. Tracpet.as units ta-ea-ana	240	विभिन्न का रू. १, २०४, प्रेनियों सार्वः, प्रथमं, प्रथमं रीडः, प्रथ विक्रियों कार्यः, व्याप्ता कर्यः, विक्रास प्रथमः, प्रथमः १९७०/१९, २०/१, ४/५, २९८/६८वें, १९, २९९/६८, २०, ५, ५, ५, २०/१, प्रथ विक्रीयों कार्यः, उसी, स्वाप्त्यः, २०१८ व्याप्तः	E. Nation	E. TANTON	37/-1/2-25	E. Se,	an ot inja Stices Socies	Hat-lein obergil geken	स्मिते को
स्वकृतम्स/वीक्शतीक्त/-४२१/८८१२२ /राजकृत/वीक्शतीक्त/-४५८/५३५३१ ४ रिकाट पाता /-वीलीका विवास पाता, सामा : पातील	E PROPERTY and ta-et-rose	2/48	कुकार के. ५, रेक्ट पंकार, राज प्रस्ताहर, पानी मार्केटरावोद, य. क. तेतनी, रेक्ट, डीटरेक्ट क. १०६८, २०६५, २१३८, क्षेत्रेस्तरी, सहाराष्ट्र - १९०३०३ समस्य (पहा), नाम.	E. SERTAGE	E. PMIn	ht/+t/Rein	E. Tojene	sa-et-iria Sitoria Secon	Hat-leis Çebesi Çebes	महिले महि
व्यवस्थात/केशनस्त/-चरेत/कार्यस्टर्ध /क्ष्मुक्तुन/केशनस्त्र/-३१८/५-२५६५ स्त्रांत्रकार्यास्त्र स्त्रांत्र सम्बद्धस्य स्त्रांत्र स्त्रांत्रः स्त्रांत्रस्य	E. 1991+4E.74 2006 +1-+1-7+74	3/44 4/4	परो: इ. मी १०४, प्राय परना, मी नित, हाता इ. ५, बताओं कोम्प्लेबर, तोवरी दरेशतकार, तोवरी, प्रोपेली रोट, यात विकासी, क्षोतीली, उसी, प्राराष्ट्र - ४१०२० मारा.	tctteee	E. Ichter	11/+t/2+1s	E. Te,poo	ecotion gatherit gather	it-ot-toiq gotood godini	चरिती सर्वे

पुरानान्यः आणि/किया यामुलीन्या तारक्षेपर्यत प्रयोज्य आग २, ११, १८% राते पुरील व्यान, आलेले अनुषीक्षक परिचय, छत्ते, अकार ३. १३ एककित. ** पीएलयी हार्किया कायनन्य लिबिटेडल्वा पाधिकृत अधिका यांच

विकास : मुंबई - दिनांक : २०.१२.२०२५

सर्वाच्या सहिती आणि सम्बुनी प्रमण्य रक्षा कर के पूर्व नहीर केलिया व्यविक्त ज्यानेन स्वाध (जाण मनंद्या संबंध जय केणांती प्रमृत्य नहीत पूर्व असे प्राप्त करीता है। स्वाध कर केणांती प्रमृत्य नहीत पूर्व असे प्राप्त करीता कर केणांती असे प्राप्त करीता कर केणांती जाता कर केणांती केणांती कर केणांती केणांती कर केणांती कर केणांती क पति पति हैं के पान दिना पति का पति हैं के पति है के

हाड़ी/- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी इस्क्रीहेंग फावनान्स लिपिटेड

स.११.०० ने सार्व.०४.०० दरम्यान "जे आहे जेने आहे" "जे आहे जाते अते अति" जे कही आहे नेने जाहे" वाचारे विकासात नेना आहे.

स्टेस्ट असिट्स मेंबव्हरी शाखा, मुंबई (७५१६८):- ६वा पवला, িছা State Bank of India क्षेत्रसम्बर्गः १६, महण करे रोड, वर्वेष्ठः, मुंबर्ग - ४०००२०. फोनः এ२२-२२०५३६६३/२२०५३६६५/२२०५३६६५ मिलः क्षांधाक्रकारकालः

स्थावर मिळकर्तींच्या विक्रीकरिता ई-लिलाव विक्री सूचना

मिक्यपिटायग्रेशन अंध्र रिकन्स्टक्शन अपेफ फायनान्शियल ॲसेट्स ॲप्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्य्पिटी इंटरेस्ट अंक्ट २००२ सहवाचना सिक्य्पिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) इन्स. २००२ च्या

नियम ८(६) च्या तरतदीन्वये म्यावर मनेच्या विक्रीकरिता ई-लिलाव विक्री सचना, पर्वसमान्य करता आणि दिशेषक कर्यद्रक आणि दर्गादर बांच सूचना बाह्रो देखात केते ही. पालील वर्णिलेल्या स्थान मिलकती या ताला पनकोक्दे गराण/प्रमानित आहेत विचा प्रत्यक्ष करूम स्टेट केंक साँक हिंदब, ताल पनकोच्या प्रापिकृत अधिका-यांनी पेतला आहे त्या खालील विनिर्देशसुधम संबंधित कर्कड़ा लालि हमीड्सफंड्यून स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाल पनको) ला पकीत संबंधित कर्मच्या वसुलीसाठी ठट, ৮१.२०२६ रोजीस

कर्नद्वाराचे नाव	वसुलीसाठी एकून देव रक्षम	स्थावर मिळकर्तीचं तपसील	ससीव किंमत (क. मध्ये)	इसारा अशामा रक्कम (इर्लडी) (ह. मध्ये)	मालगताच्या गयासमीसाठी सरीमा आणि येळ
बी. विज्ञाल आनंद		मिककार आपदीः एसबीजायस्वरतावारैश्वरक्षकार स्वावर मिकका समाविष्ट ये से सर्व भाग आणि विभाग माणवे प्रसंदक्षके-११०३, १९वा मकता, कामा अहिना कॉम्प्सेक्स, अन्ना त्राव डाउन टाउन भागील गाव योगी, करवाण, अली-४११२०१ एकुण मोववाणित १५०३५ वी.कृ. (चटर्ड केंद्र र बीएको फर्सट ये ते सर्व भाग आणि विभाग, कर्माः प्रापक्ष	६. ३६,००,०००/- (स्वये एकोणवालीस सम्बन्धाः	६. ३,६०,०००/- (सम्बे तीन लाख रूबद हबार माउ)	०३.०१.२०२६ इ.२.०० में सांच.४.००

ई-लिलाव बैंफेच्या ई-लिलाव सेवा प्रदक्षा थे. गीएसबी अलाव-म प्रावलेट लिमिटेड वार्पेत त्यांच्या https://baanknet.com वेब गोर्टलयन केला जाईल, इच्छुक बोलीदारांनी वायी कावी करावी की त्यांनी स्था यी ई-लिलाव वेंबसाइटवर नेंदगी केली आहे आणि http://baanknet.com वर प्रदान केलेटवा मार्गदर्शक परवांसुसार सेवा प्रदारवाने क्यार केलेटवा वरण्डुंआन वॉलेटमध्ये क्यापा गैसे कमा केले आहेत. हण्डुक बोलोदार ज्यांना लागिन आवडी जांग पासवर्ड तयार काणे, डेटा जपलोड करणे, बिड दुसर्ग्वेच सबीमट करणे, प्रतिपण/प्रदर्शन, ऑनलाईन जांतर-से-बिडिंगच्या अटी व शार्री हत्यार्द्धसाठी सहस्य आवस्यन

माहे, त्यांनी http://baanknet.com वा वेबसाइटला भेट चार्वी.

विक्रीच्या रामीलयम नहीं जानि जातीसाठी कृपया स्टेट कैंक जाँक इंडिया, रामणी पनकोंची वेबसाईट मध्ये दिलेसी लिंक बयाची www.sbl.co.in, https://bank.sbl. https://isbl.co.in/web/sbl-in-the ows/auction-notices/sarfaesi-and-others आणि http://baanknet.com

सस्प्रेमी काथदाच्या नियम ८(६) जंतरीत वैद्यानिक सूचना: सर्पेमी काव्य २००२ च्या नियम ८(६) जंतरीत करीत कर्जाच्या कर्जदार/तमीदासरा वरील सुर्पेशा मालमतेच्या विक्रीसाठी लिलाव देवण्यायाया ती

देखील एक मुखना जाहे रमृद केलेली वारीख चौकजी: बी. वाल्मिक पाय, सिटी केस अधिकारी, मोबाईल क.८४२४५९८००९, बी. महेज चौधरी, केस लीड अधिकारी, मोबाईल क. ७८७५०४४६९५

Crim: 20,22,2024 प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया विकाणः मुंबई

AU

एयु स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (शेड्युल्ड कमर्शियल बैंक)

बॉदणी कार्यालयः १९-ए, युळेश्वर गार्टन, अवपेर रोड, जयपूर - ३०२००१, राजस्थान (भारत) (सीआयएन : एल३६९११आरजे१९९६पीएलसी०११३८१)

परिशिष्ट-IV-ए (नियम ८(६) च्या तस्त्दी पहा) स्थावर मिळकर्तीच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना

सक्युरिटाबद्रेशव औरद पिकन्द्रवस्त आफ फावनाशियन असेटस् औरद एन्फोर्मिर आफ मिक्युरिटी इंटोस्ट अंकर २००२ सहसावता सिक्युरिटी इंटोस्ट (एन्फोर्मिट) फ्रन्स २००२ च्या निवस् ८(६) च्या तातुदीव्यवे स्यावर मानेच्या विक्रीकारित र्ट-दिस्ताव विक्री सुन्ता.

वर्तमानान्य जनतः आणि विशेषतः कर्नहा (महर-कर्नहा (महत्यवददाः आणि हारीहर वांचा सूचन बहुने देखान केहे की, धानीन वर्णितेन्या स्थान विशेषकी ताण पनकीकरे गहाण आहेत. न्यांचा आविक/पन्यम् करण **एष् गारीन का**ननान बैंक लिपिटेट (मेट्युन्ट क्यांनियल बैंक) कर्नाम म्युम्सम्पर्का लाग उल्लेख न्या प्राधिकृत लिफस्यांनी वित्ता आहे. म्युम्सम्कर्णी माननेन तामा प्रकार प्रकीत कोटकत नमूर क्योसह पुटील ज्यान, प्राप्तव, प्रमार लागि धर्मान्य वहुतीवर्क (-सिताबारफंट ''ने आहे नेशे आहे'', ''ने आहे नाहे आहे'' आणि ''ने काड़ी आहे तेले आहे'' वा तत्वाने विकरवात देशार आहेत.

कर्ज खाते झ./ कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गहामायटहार/ हमीदाराचे नाव	१३(२) मागणी सूचनेची गाउँख आणि रक्कम	कम्बाची गारीख	विक्रकरीचे धर्णन	मिककारिताठी राखीय किंमत	मिकक्तीमाडी इसारा स्क्रम	ई-सिनाथाची पारीस जाणि वेख	बोली सादा करण्याची गारीमा आणि वेळ	ई-शिलाव विविदा सादर करण्याचे विकास	संपर्क व्यक्ती जानि मिळकत पाइनी गारीख
(कर्ज काले क्रमांक) हम१००६०६०१२४८६६२३ ओरक्सम टेब्नॉलीबीव (कर्जेट्टा), बीम वेपनी व कोलकनकर (पर्य-कर्जेट्टा), ब्रिगेश कोलकनकर (पर्य-कर्जेट्टा)	१३-ऑगस्ट-२४ ६. ४४,२१,८३२/- ६. दक्षेत्राजीस लाख एक्सेश्रतीस हबार आउडी अरीस माउ १३-ऑगस्ट-२४ ऐबीस	१४-अविद्येषर- रप	संग क. १९, साजम्बता, विरोधन अपार्ट्य पार्च विरोधन सीव्यव्यवस्थान गामुन देखील ओल्स्वाली नात, सीटीएस क. १-३३/ए, एरी संबद बोसी घेड, देशिय पूर्व, ता. बोसियली, जिल्हा गुंबई-४०००६८, साजमाधित ११० चर्च, मू.	६. १८,५०,०००/- ६. अट्टेबालीम १८४६ गाउँम हजर माउँ	1. 400 VIDE			स्यू स्मांत प्रतयतास्य प्रकाति , जान्येषा प्रमाः क.१०५, निस्त्री गेन्द्र- वर्चे दुर्मिन्द्रान रोट, वर्चे दुर्मिन्द्रान रोट, सूर बाम, जमनावरी, सुंबई, महाराष्ट्र ४०००२३	said Rimm १११८६४७८४१ १४७५३३५८१३४ nuchons@ autonskin २३ - वार्च - २६
(कर्ज खात क्रमांक) एमप००१०६०१२२१०३५२१ दुनिक संस्था कार्याख्य, त्याचे मातकाद्वी उद्यासा विवय प्राप्तीत (कर्वद्रम), बीम उत्यक्ता विवयकुमार पाटीत, विवयकुमार पाटीत बांची पत्नी (मात्र-कर्वद्रम), विवयकुमार मान्यों पाटीत, मान्यों पाटीत बांचा मुलगा (मात्र-कर्वद्रम)	१२-छितेबर-१३ ६. ८,८०,११७/- १. बार्ड साध संस्थापनी तथार सामग्री संस्थापक माम ११-छितेबर-१३ ऐनीम	×3-ऑक्टोबर-२५	मिलकत वेचे स्थित सम पंचाया महालक्ष्मी रेसिटेनी सर्थम नगर, सार्च के रुप/प, पर्वाट, फर्टर के न्द्र , पर्वाच, फर्टर के न्द्र , प्रीचे - परमध्यादी, वा. साताय, बिल्हा साताय, महत्याद्व मोज्याधित ५८.०८ च्या मीलक्ष्म क्षार्	±. †a,oo,aoo/− ±. GG लाख सञ	र. १,००,२००/- ६. १६ लाख गाउ	०४-फेब्रु २६ ५.२.०० में साथ ४.०० ५ जिस्टाच्या अभ्यादित विस्तारांमत		ह्यू स्मीत कायताना बीक कि., जाखेषा पताः जोग क.१२, जीतम टोम्मं, कोजनी, फलटण, टोम्मं, फलटण, साराम, महाग्रद्	स्तिह्न देखे १७०३ १०६,२९३० १७०५ ३३६,८२३४ pactions हुए automit in ३० - जाने २६

१) तमण मरोची ई-जिताब किही ही तमण पनको मूलचे प्यूप्तएमबीच्या काचि आणि करिता "वे आहे जेचे आहे", "वे आहे वहे आहे", "वे कही आहे तेचे आहे" आणि "विना अकरवं" तत्वाने करणात वेईल आणि देषे स्ट्रा मिल्प्बतीय कोषताही बोजा अस्तित्यात नाही.

 तांकराईव ई-विकास विक्री पच्चे महणाणी होण्याकरिया बोक्से एक्साकेत बोक्से एक्साकेत बोक्से एक्साकेत बाक्सेस कंदराच्चा उठाउ काणि प्रोटो आवारी, प्रथाचा पुरास हा इसस्मह साहर काण्या आहे. इसर एमएएएएई जांक्स पुत जकाउंट ऑफ एषु स्मांत फावनान्स केंक तिमिटेड, चातु खाते क. १९२१२०११५९६ एषु स्मांत फावनान्स केंक लिमिटेड, पावण काणि सहाया मवारा, सबी बिग वंदकत, एसटीमी खासरा क. ६४ ते ६७, ग्रम सुबर्शुरा, न्यू आणि भारेट, क्यार ३०३०२०, आवर्ष्याची कोट - Aust.0002011, च्या सबे आदीवीएम/एस्र्रेएकटीट्टो हेव आहे. इकटा जॉनलाईन सारा केलेली कोली करदन पेता वेषण नाहे. पूर्व बोलीदरांनी सारा केलेल्य बोलीयह पुरील कील आवरीकर स्टब्पेन auctiongsaubana.in कारा केलेल्या देकच्या प्रतीसह साराजीवीएम/एस्ट्रेंग्टी/टीडीया दुटिजार/संदर्भ क./डीडी क. पाटवियो आवरकक सबो

३) सर्व इच्छुड सहमानी होगाँ। बेजीदारांना ई-पिन्तर विक्री प्रक्रिकेत पान पेन्यासाठी सदी नानि सर्वित्व हुनैत तारीमताडरिता वेवसाईट https://wartaest.auctionsger.net नानि https://www.aubank.ie/bank.auction वेवे पेट रुवाची विनंती करण्यात केत आहे

मधी व कर्तीसाडी, ई-सिन्तव विक्री प्रक्रिनेत सहपानी होण्यामाठी तसेच अधिक पाहितीमाठी auctions@autionk.in वा ई-पेल आवडीवर संगर्क साध्यापाचा सलल देखात वेतो.

Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

कुषका नींद प्याची : सदर वरीत क्यूर ताम्क्रेस सिविदा/अंतर्गेव बोतीमार्कत विक्रीबावत वरीत सदर कर्व बाल्याचे कर्वदार/सह कर्वदार/बालक्टदार बांग निवस ८(६) सहवावतर निवस ९(१) अन्यवे ३० दिवसाची सूचना सुद्धा लाहे. दिलेखा मुचना कालावधीत कर्कदारांनी त्यांची चकवाकी पूर्ण न केल्यात फिलक्तीची विक्री करणात बेईल.

दिनांब : १९/१२/१०२५ विकाम सातमा / मुंबई, महासाष्ट पाधिकत अधिकारी, एवं स्मॉल फाव्यस्य वैक लिमिटेट

eClerx eClerx Services Limited

Registered Office and Correspondence Address: Sonawala Building, 1º Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, Maharashtra, India Phone No.: +91 22 6614 8301 • Fax No.: +91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319 Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary Email Id: investor@eclerx.com · Website: www.eclerx.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

eClerx Services Limited ("Company") has completed the dispatch of Letter of Offer dated December 18, 2025 along with Tender Forms and Form SH-4 ("LoF") on Friday, December 19, 2025 for Buy Back to all the shareholders holding Equity Shares as on the Record Date i.e. Wednesday, December 17, 2025 ("Eligible Shareholders") through electronic means to those

Further, in terms of Regulation 9(ii) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("SEBI Buy Back Regulations"), as amended, if the Company or the Registrar to the Buy Back receives a request from any Eligible Shareholder to obtain physical copy of the LoF, the Company shall dispatch a copy of the LoF in physical form.

The Schedule of Buy Back is as follows-

Activity	Date	Day
Date of opening of the Buy Back/Buy Back Opening Date	December 22, 2025	Monday
Date of closing of the Buy Back/Buy Back Closing Date	December 29, 2025	Monday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents by the Registrar to the Buy Back*	December 29, 2025	Monday

* For terms and conditions of Buy Back and other details, please refer LoF.

For detailed schedule of activities, please refer to the LoF. The details of the Row Bank antitlement ratio are as follows:

Category of Shareholders	Ratio of Buy Back (i.e. Buy Back Entitlement)*
Reserved Category for Small Shareholders	3 (Three) Equity Shares out of every 19 (Nineteen) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date
General Category for all other Eligible Shareholders	3 (Three) Equity Shares out of every 121 (One Hundred Twenty One) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date

The ratio of Buy Back Indicated above is approximate and provides an indication of the Buy Back Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above ratio of Buy Back may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buy Back Entitlement for reserved category for Small Shareholders is 15.8352926868818% and general category for all other Eligible Shareholders is 2.48039298949663%.

For further information on Ratio of Buy Back as per the Buy Back Entitlement in each category, please refer paragraph 19.5 on page 30 of the LoF.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

- Click on https://kosmic.kfintech.com/karisma/buybackofferv2.aspx;
- Select the name of the Company eClerx Services Limited;
- 3) Select holding type "Demat" or "Physical" or "PAN";
- 4) Based on the option selected above, enter your 'DPID CLID' or 'Folio Number' or 'PAN'; 5) Then click on View button; and

 The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'. The LoF shall be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in and on the website of the Company at www.eclerx.com. of the Manager to the Buy Back at https://www.emkayglobal.com/offer-documents. aspx, website of the Registrar to Buy Back at www.kfintech.com and of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and

www.bseindia.com

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LoF. As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and

material information and does not contain any misleading information. This Advertisement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on October 24, 2025 and by the Buy Back Committee on December 19, 2025.

For and on I	pehalf of the Board of Directors of eCler	x Services Limited
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Kapil Jain Managing Director & Group CEO DIN: 10170402	Mr. Amit Majmudar Non-Executive Independent Director DIN: 00565425	Mr. Pratik Bhanushali VP- Legal & Company Secretary (ICSI Membership No.: F8538)
Place: London	Place: Mumbai	Place: Mumbai

Date: December 19, 2025